



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1566]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2015/श्रावण 5, 1937

No. 1566]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2015/SHRAVANA 5, 1937

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

पुणे, 25 जून, 2015

सं. 02/2015-सीमा-शुल्क (एन.टी.)

का.आ. 2043(अ).— सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 8 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अधीन तथा इस कार्यालय द्वारा दिनांक 29-03-2013 की अधिसूचना संख्या 01/2013-सीमा-शुल्क (एन.टी.) के प्रतिस्थापन/बरखास्तगी में मैं, वासा शेषगिरि राव, आयुक्त, सीमा-शुल्क, पुणे कस्टोडियन अर्थात् मेसर्ज, डायनामिक लॉजिस्टिक, तलैरा नगर, आलन्दी रोड, दिघी पुणे द्वारा दिनांक 28-01-2015 को प्राप्त आवेदन के आधार पर दिघी गाँव, तलैरा, नगर, आलन्दी रोड, पुणे के सर्वे नं. 79, 78/1 तथा 78/2 में स्थित इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, दिघी, जो दिनांक 29-03-2013 की अधिसूचना संख्या 01/2013-सीमा शुल्क (एनटी) में दिए गए 88,400 स्क्वेअर मीटर्स आवन्ति सीमा-शुल्क क्षेत्र में से कुल आबंटन क्षेत्र 49.279 स्क्वेअर मीटर्स क्षेत्र (अर्थात् खुली जमीन-14, 717 स्क्वेअर मीटर्स, वेअर हाऊस नं. 7-3882.16 स्क्वेअर मीटर्स, वेअर हाऊस नं. 8-3882.16 स्क्वेअर मीटर्स, वेअर हाऊस नं. 13-10,802.04 स्क्वेअर मीटर्स, सुरक्षा कैबिन-17.57 स्क्वेअर मीटर्स तथा प्लिन्थ क्षेत्र-15,978 स्क्वेअर मीटर्स) के क्षेत्र का एतद्वारा डिनोटिफिकेशन किया जा रहा है।

आगे, मैं, कथित अनुसूची के स्तंभ 01 में नीचे उल्लिखित पोर्ट के स्तंभ 2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट स्थानों को आयात माल के अनलॉडिंग/उतारई तथा निर्यात माल की लोडिंग/चढ़ाई के लिए मंजूरी प्रदान करता हूँ तथा मैं एतद्वारा कथित अधिनियम की धारा 8 (ख) के अधीन स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमाओं के साथ स्तंभ 2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को भी अधिसूचित करता हूँ। उपयुक्त अनुमति सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के संबंधित उपबंधों का कड़ाई से पालन तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का अनुसरण किए जाने की शर्तों पर दी जा रही है।

अनुसूची

पोर्ट का नाम	उतारई/लैन्डिंग का स्थान	सीमा शुल्क क्षेत्र	भौगोलिक सीमाएँ
(1)	(2)	(3)	(4)
इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, सर्वे नं. 79	मेसर्ज डायनामिक लॉजिस्टिक सर्वे नं. 79, तलैरा नगर,	क्षेत्र का आबन्तन, गाँव-दिघी, तलैरा नगर, पुणे आलन्दी रोड,	उत्तर दिशा : मेसर्ज डायनामिक लॉजिस्टिक का निजी वेअरहाऊस-सर्वे नं. 79 का
तलैरा नगर, आलन्दी रोड, दिघी, पुणे-411015	पुणे-आलन्दी रोड, दिघी पुणे-411015	दिघी, पुणे-411015 के सर्वे नम्बर 79 का 39, 121, स्क्वेअर मीटर्स का क्षेत्र जिसमें खुला आबन्ति क्षेत्र	भाग, गाँव दिघी। दक्षिण दिशा: सर्वे नं. 79 का भाग, गाँव दिघी।

(1)	(2)	(3)	(4)
		27, 388 स्क्वेअर मीटर्स तथा ढका हुआ आबन्धित क्षेत्र 11,733 स्क्वेअर मीटर्स (जिसमें 1829 स्क्वेअर मीटर्स के प्रशासकीय भवन तथा सुरक्षा केबिन का समावेश है) ।	पूर्व दिशा: पुणे-आलन्दी रोड की सीमा पश्चिम: दिघी गाँव का सर्वे नं. 78/4

[फा. सं. VIII/सी.शु./तकनीकी/48-158/टीसी/09]

वासा शेषगिरि राव, आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS**NOTIFICATION**

Pune, the 25th June, 2015

No. 2/2015-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2043(E).—In exercise of the powers conferred under Section 8(a) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of notification No. 01/20 13-Cus. (NT) dated 29.03.2013, issued by this office, I, Vasa Seshagiri Rao, Commissioner of Customs, Pune, on the basis of the request application dated 28.01.2015 received from the custodian viz M/s. Dynamic Logistics, Talera Nagar, Alandi Road, Dighi, Pune, hereby approve denotification of a total area admeasuring 49,279 Sq. mtrs. (ie open land-14,717 Sq. mtrs, Warehouse No 7 - 3882.16 Sq mtrs, Warehouse No. 8 -- 3882.16 Sq. mtrs, Warehouse No. 13 - 10,802.04 Sq. mtrs, Security Cabin - 17.57 Sq. mtrs & Plinth area - 15,978 Sq. mtrs) from the total customs area admeasuring 88,400 Sq mtrs as detailed in the notification No. 01/20 13-Cus. (NT) dated 29.03.2013, of Inland Container Depot, Dighi, Pune, located at S. No.79, 78/1 & 78/2, at Village Dighi, Talera Nagar, Alandi Road, Pune.

Further, I, approve the places specified in column Nos. 2 & 3 of the schedule given below located in the Port mentioned in column No. 1 of the said schedule to be the landing place for unloading of the imported goods and loading of export goods, and I, also hereby notify the area under Section 8 (b) of the said Act as specified in column Nos. 2 & 3 as Customs Area with its limit specified in column No. 4 of the schedule, subject to the strict observance of the provisions of the Customs Act, 1962, and the circulars and instructions issued by the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue) Central Board of Excise and Customs, from time to time in pursuance thereof.

SCHEDULE

Name of the Port	Landing Place	Customs Area	Limits with Geographical Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)
Inland Container Depot, S.No.79, Talera Nagar, Alandi Road, Dighi, Pune - 1411 015	M/s Dynamic Logistics, S. No.79, Talera Nagar, Pune-Alandi Road, Dighi, Pune-411 015.	Area admeasuring 39,121 sq.mtrs of S. No.79, Village-Dighi , Talera Nagar, Pune Alandi Road, Dighi, Pune - 411015, comprising, of open area ad measuring 27,388 sq.mtrs and covered area admeasuring 11,733 sq. mtrs (which includes 1829 Sq. mtrs of administrative building and security cabins)	North:Private warehouse of M/s. Dyanmic Logistics - Part of S. No.79, South: Part of S.No.79 village Dighi. East: Bordering Pune-Alandi Road. West: Survey No.78/4 of village Dighi.

[F. No. VIII/Cus/Tech/48-158/TC/09]

VASA SESHAGIRI RAO, Commissioner